

प्रिय छात्र / छात्राएं (कक्षा नौवीं से ग्यारहवीं) एवं अभिभावक गण ,

आपको सूचित किया जाता है कि विद्यालय दिनांक 8 अक्टूबर 2020 से सरकार के निर्देशों (guidelines) के साथ पुनः प्रारंभ होगा इस हेतु नियम व सावधानियां अपनाना अनिवार्य हैं :-

1. विद्यालय में केवल वे ही छात्र / छात्राएं मार्गदर्शन हेतु प्रवेश कर सकेंगे , जिनके माता -पिता की हस्तलिखित अनुमति विद्यालय को प्राप्त होगी |
2. कन्टेमेंट जोन से आने वाले छात्र / छात्राओं को विद्यालय में मार्गदर्शन हेतु प्रवेश की अनुमति नहीं होगी |
3. छात्र / छात्राओं को विद्यालय आवागमन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी |
4. छात्र /छात्रा विद्यालय में स्कूल यूनिफार्म में स्वच्छ मास्क एवं स्वयं के हैंड सैनीटाईजर के साथ ही प्रवेश कर सकेंगे |
5. सर्वप्रथम प्रवेश द्वार पर प्रत्येक छात्र / छात्रा की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी तत्पश्चात ही विद्यालय में प्रवेश कर सकेंगे | इसके तुरंत बाद छात्र / छात्राएं मार्गदर्शन हेतु अपनी आवंटित कक्षा में प्रस्थान करेंगे |
6. छात्र / छात्राओं को विद्यालय प्रांगण में घूमने की अनुमति नहीं होगी | वे सामाजिक दूरी का भी पालन करेंगे |
7. छात्र / छात्राओं को विद्यालय में मोबाइल आदि सामग्री अपने साथ लाना पूर्णतः वर्जित है | छात्र / छात्राएं अपने साथ केवल पानी की बोतल , पाठ्य पुस्तक , एक sanitizer की छोटी शीशी , हाथ धोने के लिए एक छोटा साबुन , लंच बॉक्स एवं अन्य शिक्षण सामग्री लेकर आ सकेंगे , जिसकी जांच प्रवेश के समय मुख्य द्वार पर की जावेगी |
8. अभिभावकों से विनम्र अनुरोध है कि , वे निम्नलिखित सहमति पत्र स्वयं की लेखनी में लिखकर विद्यालय में 04.10.2020 तक प्रस्तुत करें |
9. विद्यालय में आने के इच्छुक छात्र / छात्राओं की संख्या के अनुसार उनकी कक्षा की समय सारणी निर्धारित की जावेगी | जिसकी सूचना whatsapp के माध्यम से 8.10.2020 के पूर्व दे दी जावेगी |
10. छात्र / छात्राओं का प्रवेश विद्यालय द्वारा दिए गये समय पर ही होगा तथा कक्षा समाप्त होने के बाद विद्यालय में रुकने की अनुमति नहीं होगी |

सहमति पत्र (हस्त लिखित)

मैं _____ पिता / माता _____ यह

सहमति प्रदान करता / करती हूँ कि , मैं अपने पुत्र / पुत्री _____ कक्षा

एवं वर्ग _____ को स्वेच्छा से दिनांक 8 अक्टूबर 2020 से विद्यालय प्रांगण में शैक्षिक मार्गदर्शन हेतु भेजने के लिए तैयार हूँ | मैं यह भी सुनिश्चित करता / करती हूँ कि मेरा / मेरी पुत्र / पुत्री विद्यालय व सरकार द्वारा अपेक्षित सामाजिक दूरी के नियमों का पूर्ण तरह पालन करेगा / करेगी | मुझे विद्यालय की सफाई व्यवस्था एवं संक्रमण को हटाने की सुविधाओं (सैनिटाइजेशन) पर पूर्ण विश्वास है तथा किसी भी परिस्थितियों में , मैं विद्यालय प्रशासन को कोरोना या अन्य किसी भी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा / ठहराऊंगी |

मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि , मैं तथा मेरे परिवार का कोई सदस्य कोरोना संक्रमित नहीं है तथा न ही मेरा परिवार किसी कन्टेमेंट जोन में रह रहा है | मैं भलीभांति विचार कर यह सहमति पत्र निम्नलिखित दिनांक को हस्ताक्षर कर रहा / रही हूँ |

दिनांक _____

छात्र / छात्रा का नाम _____ - छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर _____

पिता का नाम _____ पिता के हस्ताक्षर _____

माता का नाम _____ माता के हस्ताक्षर _____

पता :- _____

मोबाइल नंबर :- _____